

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2013/अग्रहायण 28, 1935

No. 297]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2013/AGRAHAYANA 28, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति-संचित, 2013

सं. फा.- 4(16) डब्ल्यू एंड एम/2012 :—भारत सरकार, 23 दिसम्बर, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 के दौरान मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति-संचित, 2013 का इश्यू (“बांड”) जारी करती है। सरकार को निर्गम को 31 दिसम्बर, 2013 से पूर्व बंद करने का अधिकार होगा। इन बांडों के निर्गम से संबंधित निबंधन और शर्तें इस प्रकार होंगी:

2. निवेश हेतु पात्रता:

इन बांडों को धारित कर सकता है:—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अनिवासी भारतीय है;

(क) अपनी वैयक्तिक क्षमता में, या

(ख) संयुक्त आधार पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, या

(ग) किसी व्यक्ति या उत्तरजीवी आधार पर व्यक्तिगत क्षमता में, या

(घ) माता/पिता/विधिक अभिभावक के रूप में किसी अव्यस्क की ओर से।

- (ii) हिन्दू अविभक्त परिवार,
- (iii) (क) 'पूर्त संस्था' से अभिप्रेत भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन पंजीकृत कम्पनी से है; या  
(ख) ऐसी संस्था जिसने किसी प्रवृत्त विधि के अधीन पूर्त संस्था के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है; या  
(ग) ऐसी संस्था जिसने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (छ) के प्रयोजनों के लिए किसी आयकर प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।
- (iv) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसमें ऐसी संस्था सम्मिलित है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

### 3. निवेश की सीमा

इन बांडों में निवेश की अधिकतम सीमा ₹ 5,000 और अधिकतम सीमा ₹ 5,00,000 प्रति आवेदक प्रति वर्ष है।

### 4. कर उपाय

आयकर: इन बांडों पर संदाय किया जाने वाला ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन उसी प्रकार करयोग्य होगा जैसा कि बांड धारक की संगत कर स्थिति के अनुसार लागू हो।

### 5. निर्गम मूल्य

- (i) बांड सम मूल्य पर अर्थात् 100.00 प्रतिशत पर जारी किए जाएंगे।
- (ii) बांड को कम से कम ₹ 5,000/- की राशि (अंकित मूल्य) या इसके गुणक में जारी किए जाएंगे। तदनुसार, प्रत्येक ₹ 5,000/- (नाममात्र) का निर्गम मूल्य ₹ 5,000/- होगा।

### 6. अंशदान

इन बांडों का अभिदान नकद/ड्राफ्ट/चेक या इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से आनलाइन होगा। चेक या ड्राफ्ट नीचे पैरा 10 में विनिर्दिष्ट, बैंक (प्राप्त करने वाला कार्यालय) के पक्ष में जारी होने चाहिए तथा वहाँ देय होने चाहिए जहाँ कि आवेदन जारी किए गए होते हैं।

### 7. निर्गम की तारीख

बांड्स खाता लेखा के प्ररूप में इन बांडों को धन के प्राप्त होने/ड्राफ्ट/चेक का संदाय हो जाने की तारीख से जारी किया जाएगा।

### 8. प्रपत्र

बांड्स को बाण्ड्स खाता लेखा के प्ररूप में जारी किया जाएगा और बांड्स लेजर एकाउण्ट (बी.एल.ए.) नामक खाते में धारक की जमा राशि के आधार पर जारी किया जाएगा।

बांडों को बांड्स खाता लेखा के प्ररूप में जारी किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाएगा। प्रपत्र I में यथा-विनिर्दिष्ट धारण प्रमाणपत्र, बाण्ड्स खाता लेखा में बांड धारक को जारी किया जाएगा।

## 9. आवेदन

- (i) बांड के लिए आवेदन, संलग्न प्रपत्र अथवा किसी अन्य रूप में किया जाए जो इसकी तरह हो जिसमें धनराशि तथा आवेदक का पूरा नाम और पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
- (ii) उपर्युक्त पैरा 6 में दर्शाए अनुसार, आवेदन के साथ नकद/ड्राफ्ट/चैक/इन्टरबैंकिंग के माध्यम से आनलाइन रूप में आवश्यक संदाय का प्रमाण संलग्न किया जाए।

## 10. प्राप्तकर्ता कार्यालय

बांड खाता लेखा के रूप में बांड के लिए आवेदन निम्नलिखित के पास भिजवाए जाएंगे :

- (क) भारतीय स्टेट बैंक, सम्बद्ध बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, तीन प्राइवेट सेक्टर बैंकों (अर्थात् एच.डी.एफ.सी. बैंक लि., आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. और एक्सिस बैंक लि.) की शाखाओं और स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. पर सोमवार से शुक्रवार पूर्वा. 10 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक तथा शनिवार को पूर्वा. 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और
- (ख) कोई अन्य बैंक अथवा बैंकों की शाखाओं और स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।

## 11. नामांकन

- (i) बांड का एकमात्र धारक अथवा उत्तरजीवी धारक, व्यक्ति होने के नाते, इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र अथवा ऐसे ही प्रपत्र में, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा जो उसकी मृत्यु की दशा में बांड और उन पर मिलने वाले संदाय के हकदार होंगे।
- (ii) जहाँ दो या अधिक नामनिर्देशित व्यक्तियों को संदाय किया जाना है तथा इस संदाय के देय होने से पूर्व उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो बांड का हक नामनिर्देशित जीवित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में निहित होगा तथा उसपर देय हो रही धनराशि, तदनुसार, संदाय की जाएगी। धारक की मृत्यु से पूर्व नामांकित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में धारक नया नामनिर्देशित कर सकेगा।
- (iii) अवयस्क के नाम से जारी किए गए बांड्स के संबंध में कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।
- (iv) बांड धारक द्वारा किया गया नामांकन, यथास्थिति, इसी अधिसूचना में संलग्न प्रपत्र में बांड प्राप्तकर्ता कार्यालय को लिखित में नोटिस देकर उसी के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है अथवा इसे रद्द किया जा सकता है।
- (v) प्रत्येक प्रकार का नामांकन अथवा रद्द किया जाना अथवा परिवर्तन, प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत किया जाएगा तथा यह इसके पंजीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।

- (vi) यदि नामनिर्देशित व्यक्ति अवयस्क है तो बांड धारक, नामनिर्देशित व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान उसकी (बांड धारक की) मृत्यु होने पर, किसी व्यक्ति को बांड/राशि प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

## 12. अन्तरणीयता

बांड खाता लेखा के रूप में रखे बान्ड, बांड धारक (केवल व्यक्तियों) की मृत्यु की दशा में नामांकित व्यक्ति को अन्तरणीय होंगे।

## 13. ब्याज

इन बांड्स पर 1.5% (नियत दर) प्रति वर्ष की दर से ब्याज + अन्तिम रूप से सम्मिलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में संगणित मुद्रास्फीति दर [(सी.पी.आई.) बेस:2010=100] दिया जाएगा। वर्धमान मुद्रास्फीति दर संगणित करने के लिए, अन्तिम सम्मिलित सी.पी.आई. को, तीन माह पश्चात् प्रयोग किया जाएगा। (अर्थात् सितम्बर की अन्तिम सम्मिलित सी.पी.आई. को दिसम्बर के सभी दिनों की सी.पी.आई. संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाएगा)। ब्याज अर्ध-वार्षिक ब्याज दर से संगणित किया जाएगा तथा मूलधन सहित ब्याज परिपक्वता पर, संदेय होगा।

## 14. बांड पर अग्रिम/व्यापारिक योग्यता

बांड्स का द्वितीय बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा। ये बान्ड्स बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी से ऋणों के लिए समपार्श्व के रूप में प्राप्त होंगे। इस आशय का लियन, प्राधिकृत बैंकों द्वारा निक्षेपागार (भारतीय रिजर्व बैंक) में चिन्हित किया जाएगा।

## 15. परिपक्वता पर वापसी

ये बांड्स जारी करने की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर प्रतिसंदेय होंगे। बांड की परिपक्वता सुनिश्चित करने के संबंध में परिपक्वता से एक माह पूर्व प्राधिकृत बैंक द्वारा निवेशक को सलाह दी जाएगी कि वह प्राधिकृत बैंक को परिचय पत्र, एन.ई.एफ.टी/एन.ई.सी.एस. लेखा ब्यौरा इत्यादि दे। यदि हर चीज ठीक है, तो निवेशक को परिपक्वता के अधिकतम पांच दिन के भीतर धनराशि का संदाय कर दिया जाएगा।

परिपक्वता तारीख से पूर्व, चुकौती/मोचन की अनुमति, 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में बांड धारण करने की तारीख से एक वर्ष पश्चात् तथा अन्य के संबंध में बांड धारण करने के तीन वर्ष पश्चात्, होगी तथा इस पर संदेय अन्तिम कूपन की 50% की दर पर जुर्माना लगेगा। समयपूर्व मोचन की अनुमति केवल कूपन तारीखों पर दी जाएगी।

## 16. रख-रखाव प्रभार

प्राधिकृत बैंकों को, निवेशकों से प्राप्त अंशदान प्रति पर 100 रुपए पर 1.00 रुपए (केवल एक रुपए) की दर पर रख-रखाव प्रभार का संदाय किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,  
डा. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

प्रपत्र I

**भारत सरकार**

## धारिता का प्रमाणपत्र

मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियां-संचित (आईआईएनएसएस-सी)

प्रमाणित किया जाता है कि (अभिदानकर्त्ता का नाम) (निवेशक आईडी) मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियों-संचित (आईआईएनएसएस-सी) का धारक है जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

प्रमाणपत्र आईडी	राशि	यूनिटों की संख्या	निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख	निवेशक बैंक आई एफ एस सी	निवेश आई डी	नामित व्यक्ति
1.							
2.							

### अदायगी खाता का ब्यौरा :

खाता सं. :

**आई एफ एस सी :**

**खाता नाम :**

यह दिनांक-की भारत सरकार की अधिसूचना में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अधीन जारी किया गया है।  
कम्प्यूटर से निकाली गई प्रति- हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

<बैंक का नाम >

<शाखा का नाम>

आवेदन संख्या

\_\_\_\_\_

मद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति - संचयी (आईआईएनएसएस-सी)

हेतु आवेदन-पत्र

(जहां अपेक्षित हो  $\sqrt{\quad}$  का चिह्न लगाएं। क्षेत्र  $*$  अनिवार्य हैं)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

आवेदन प्राप्त की तारीख (दिनांक/माह/वर्ष)	बीएलए सं०	सीआईएफ सं०	प्रमाण-पत्र सं०	सरकारी खाते में जमा करने की तारीख (दिनांक/माह/वर्ष)
शाखा का नाम व कोड				

आवेदक(कों) का/ के नाम [साफ अक्षरों में]

[illegible]

अंतिम नाम

प्रथम नाम


**मध्य नाम**

1##इनमें से कोई एक दस्तावेज और एक आवेदक द्वारा कई निवेशों के मामले में, एक ही पहचान दी जानी चाहिए।



द्वितीय गवाह का नाम .....

पता..... पता

.....

.....

हस्ताक्षर ..... हस्ताक्षर .....

बैंक प्रमाणीकरण (अपेक्षित नहीं, यदि बैंक की छायाप्रति दी गई है।)

.....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही है।

(दिनांक, बैंक की मुहर व प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

गैर विभाजित हिंदू परिवार घोषणा फार्म  
(अनिवार्य, यदि आवेदक गैर विभाजित हिंदू परिवार में कर्ता है।)

मैं,....., प्रथम आवेदक के समक्ष दिए गए पते का निवासी, सत्यनिष्ठापूर्व यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैं गैर विभाजित हिंदू परिवार में कर्ता हूँ और इस हैसियत से मुझे गैर विभाजित हिंदू परिवार के नाम से मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति - संचयी (आईआईएनएसएस- सी) को बेचने, पृष्ठांकित, हस्तांतरित अथवा अन्य कुछ करने की पूर्ण शक्ति हैं।

गैर विभाजित हिंदू परिवार के लिए और उनकी ओर से नमूना हस्ताक्षर (गैर विभाजित हिंदू परिवार का नाम).....

(गैर विभाजित हिंदू परिवार की मुहर सहित कर्ता का नाम)

स्थान:.....

तारीख: .....

नामांकन सुविधा (वैकल्पिक)

मैं,..... निवासी ..... जो कि बांड संख्या ..... का धारक हूँ, निम्नलिखित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ,

जिनका मेरी मृत्यु के पश्चात बांड पर अधिकार होगा/निम्नलिखित विनिर्दिष्ट बांड पर देय भुगतान राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।

नामांकित व्यक्तियों का विवरण							
क्र.सं.	जारी करने की तारीख	राशि	पुनः भुगतान की तारीख	नामांकित व्यक्ति का पूरा नाम तथा विस्तारित उप-नाम तथा पता	जन्म तिथि	धारक से संबंध	बैंक लेखा का विवरण

यदि नामनिर्देशित व्यक्ति अवयस्क है, तो कृपया निम्नलिखित लाइन भरें:

चूंकि ..... उपर्युक्त नामनिर्देशित व्यक्ति इस तारीख को अवयस्क है, अतः मैं ..... श्री/श्रीमति/कुमारी..... को मेरी मृत्यु होने पर उपर्युक्त नामांकित व्यक्ति ..... (नामांकित व्यक्ति जो अवयस्क है) के अवयस्क बने रहने पर उपर्युक्त बांड --- पर देय धनराशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ।

नामांकन में परिवर्तन/रद्द करना: यह नामांकन मेरे द्वारा किए गए दिनांक ..... के नामांकन के प्रतिस्थापन के संबंध में है, जो कि आपकी बही में..... पर दर्ज है तथा जो इस नामांकन के दर्ज किए जाने के पश्चात् रद्द हो जाएगा।

स्थान:

तारीख :

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान  
(अंगूठे के निशान को दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए)

साक्षी:

पहले साक्षी का नाम .....

दूसरे साक्षी का नाम .....

पता.....

पता.....

.....

.....

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति- संचित (II एनएसएस-सी) में निवेशकों के लिए जानकारी

भारत सरकार ने दिनांक ..... की अपनी अधिसूचना संख्या एफ 4 (16)-डब्ल्यू एण्ड एम/2012 के अंतर्गत मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति- संचित (II एनएसएस-सी) शुरू किया है। इस योजना के मुख्य पहलू निम्नानुसार हैं:-

मद	मुद्रास्फीति निर्देशित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति- संचित	टिप्पणी
1) निवेशक की श्रेणी	एकल व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, विश्वविद्यालय, धर्मार्थ संस्था	इन बांडों में निवेश के लिए अनिवासी भारतीय पात्र नहीं है।
2) निवेश की सीमा	प्रति निवेशक, प्रतिवर्ष न्यूनतम 5000/- रूपए तथा अधिकतम 5,00,000/- रूपए	
3) बांड जारी करने की तारीख	निधि- प्राप्त करने की तारीख/चैक/ड्रफ्ट के खाते में आने की तारीख	
4) बांड के प्रपत्र	डीमैट	बांड बही खाता लेखा
5) ब्याज का विकल्प	संचित अर्थात् ब्याज समय पूरा होने पर (परिपक्वता पर) देय है	अर्द्ध वार्षिक ब्याज (चक्रवृद्धि)
6) परिपक्वता के बाद ब्याज	परिपक्वता के बाद ब्याज देय नहीं है	
7) बैंक लेखा	निवेशक के लिए यह अनिवार्य है कि वह बैंक खाते का ब्यौरा दे ताकि ब्याज/परिपक्वता राशि का भुगतान करना आसान हो सके।	
8) नामांकन सुविधा	पूर्ण धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं	एकल अनिवासी भारतीय
9) परिपक्वता अवधि	10 वर्ष के पश्चात्	
10) समयपूर्व मोचन	वरिष्ठ नागरिकों अर्थात् 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए जारी हाने की तारीख से एक वर्ष पश्चात् तथा शेष के लिए जारी होने की तारीख से 3 वर्ष पश्चात्	अंतिम कूपन भुगतान के 50 प्रतिशत की दर से जुर्माना प्रभार/केवल कूपन तारीखों पर अनुमत
11) अंतरणीयता	धारक की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति तक सीमित (केवल एक व्यक्ति के लिए)	
12) इन बचत बांडों की प्रतिभूति पर बैंकों से ऋण	इन प्रतिभूतियों के धारक, अनुसूचित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, एन.बी.एफ.सी. के पक्ष में शपथ, गिरवी अथवा लियन रख सकेंगे।	

13) आवेदन पत्र	भारतीय स्टेट बैंक तथा सम्बद्ध बैंकों की शाखाएं, 20 राष्ट्रीय कृत बैंक, निजी क्षेत्र के 3 बैंक अर्थात् एचडीएफसी बैंक लि., आईसीआईसीआई बैंक लि., और एक्सिस बैंक लि. तथा स्टोक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	
----------------	---	--

## निवेशक/ आवेदक के कर्तव्य

- (क) कृपया आवेदन पूर्ण रूप से भरें।
- (ख) अधूरे भरे गए आवेदन से प्रतिभूति के (जारी होने में विलम्ब हो) निवेशक को नुकसान होगा।
- (ग) यदि आवेदन मुख्तारनामा धारक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है मूल मुख्तारनामा की अनुप्रमाणित प्रति के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें।
- (घ) यदि आवेदन अवयस्क की तरफ से है तो स्कूल अथवा नगर निगम प्राधिकारी का जन्म का मूल-प्रमाण-पत्र अनुप्रमाणित प्रति के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें।
- (ङ) कृपया यह नोट करें कि नामांकन की सुविधा इस बान्ड के एकमात्र धारक अथवा सभी संयुक्त धारकों (निवेशकों) को है।
- (च) यदि नामनिर्देशित व्यक्ति अवयस्क हैं तो कृपया उसकी जन्म तिथि लिखें तथा इसके लिए अभिभावक भी नियुक्त किया जा सकता है।
- (छ) यदि निवेश अवयस्क की तरफ से है तो नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- (ज) कृपया पते में परिवर्तन से यथाशीघ्र अवगत कराएं।
- (झ) परिपक्वता तिथि के पश्चात्, परिपक्वता बाद का ब्याज देय नहीं होगा। अतः देय तारीख पर भी धनराशि वापस लें।
- (ञ) कृपया अपनी जन्म तिथि/दर्शाएं।
- (ट) इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाएं।
- (ठ) कर लागू होने सम्बंधी कोई भी जानकारी बैंक/शाखा को दी जाए।

## निवेशक के अधिकार

- (क) बान्ड प्रमाणपत्र निधि प्राप्त होने/चैक/ड्राफ्ट के खाते में जमा होने की तारीख को जारी किया जाएगा।
- (ख) बान्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज, अर्द्ध वार्षिक दर से लगाया जाएगा। आवेदक द्वारा उसके आवेदन में दिए गए ब्याज के अनुसार (मूलधन और ब्याज) परिपक्वता धनराशि को धारक के बैंक खाते में सीधे भिजवा दिया जाएगा।
- (ग) बान्ड की देय तारीख के एक माह पूर्व परिपक्वता सूचना भिजवा दी जाएगी।
- (घ) ब्याज और मूलधन के निशुल्क डिमांड ड्राफ्ट अथवा समतुल्य चैक पर भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
- (ङ) अन्तर बैंक शाखा अथवा अन्तर बैंक शाखा में बाण्ड के अंतरण की सुविधा उपलब्ध है।
- (च) आईआईएनएसएससी बाण्ड के सम्बंध में निवेश मोचन, एनईसीएस/एनईएफटी अधिदेश आदि के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट [www.iiensscs.com](http://www.iiensscs.com) (बैंक और एसएचसीआईएल बैबसाइट) पर उपलब्ध है।
- (छ) एकमात्र धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, बाण्ड के अधिकार के संबंध में एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकता है। अनिवासी भारतीयों को भी नामनिर्देशित किया जा सकता है।
- (ज) नामांकन जारी किए जाने वाले कार्यालय में दर्ज किया जाएगा तथा धारक को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- (झ) नया नामांकन दर्ज करवा कर नामांकन में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ञ) जारी करने वाले कार्यालय को अनुरोध करके मौजूदा नामांकन को रद्द करवाया जा सकता है।
- (ट) निवेश की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने पर मोचन हो सकेगा अगर समयपूर्व परिपक्वता लागू नहीं हो।

- (ठ) धनराशि वापस लेने के अनुरोध की तारीख से पांच कार्य दिवस के भीतर निवेशक भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा।
- (ड) ब्याज/धनराशि वापस लेने में विलंब से बचने के लिए आवेदक, अर्धवार्षिक ब्याज/ परिपक्वता पर धनराशि के एनईसीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस अथवा बैंक खाते में सीधे क्रेडिट करने का विकल्प दे सकेगा।
- (ढ) निवेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर जारी दरों पर विलंब भुगतान के (राहत और बचत बाण्ड के संबंध में) लिए प्रतिपूर्ति का हकदार है।
- (ण) यदि बैंक उपर्युक्त अनुपालन नहीं करता है तो आप रिजर्व बैंक के नजदीकी कार्यालय को निम्नानुसार लिखित में शिकायत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक,  
भारतीय रिजर्व बैंक,  
ग्राहक सेवा विभाग/बैंकिंग लोकपाल  
(स्थान)

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को संबोधित कर सकते हैं:-

मुख्य महा प्रबंधक प्रभारी

सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय,

बाई कुला, मुंबई, सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सामने

मुंबई 400008, महाराष्ट्र

डिस्कलेमर:- मैंने निवेशक की जानकारी का ब्यौरा तथा अधिकार और कर्तव्य पढ़ और समझ लिए हैं। एजेंट/ बैंक ने इस योजना के

पहलुओं से मुझे अवगत करा दिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

यहां से फाड़े

### आवेदन प्रपत्र की पावती

आवेदन सं०

बैंक शाखा.....

दिनांक ...../...../.....

श्री/श्रीमती/सुश्री..... से राष्ट्रीय बचत मुद्रास्फीति निर्देशित प्रतिभूति की

खरीद के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए..... रुपये नकद/ऑनलाइन/इंटरनेट

बैंकिंग/ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर/ चैक संख्या ..... दिनांक ...../...../..... (बैंक और शाखा) से प्राप्त हुए। इन पर---

-----रुपए (रुपये ..... केवल) की नाममात्र

कीमत पर संचयी आधार पर ब्याज देय है।

तारीख, बैंक की मुहर, तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के  
हस्ताक्षर

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**(BUDGET DIVISION)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th December, 2013

**Inflation Indexed National Savings Securities - Cumulative, 2013**

**No. F 4(16)-W&M/2012 :—**The Government of India, hereby notifies the issue of Inflation Indexed National Savings Securities—Cumulative, 2013 (“the Bonds”) from December 23, 2013 to December 31, 2013. The Government of India reserves the right to close the issue earlier than December 31, 2013. The terms and condition of the issue of the Bonds shall be as follows :

**2. Eligibility for Investment:**

The Bonds may be held by -

- (i) an individual not being a Non-Resident Indian-
  - (a) in his or her individual capacity, or
  - (b) in individual capacity on joint basis, or
  - (c) in individual capacity on anyone or survivor basis, or
  - (d) on behalf of a minor as father/mother/legal guardian.
- (ii) a Hindu Undivided Family.
- (iii) (a) 'Charitable Institution' to mean a Company registered under Section 25 of the Indian Companies Act 1956; or
  - (b) An institution which has obtained a Certificate of Registration as a charitable institution in accordance with a law in force; or
  - (c) Any institution which has obtained a certificate from an Income Tax Authority for the purposes of Section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- (iv) "University" means a university established or incorporated by a Central, State or Provincial Act, and includes an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), to be a university for the purposes of that Act.

**3. Limit of Investment**

Minimum limit for investment in the bonds is ₹ 5,000 and maximum limit for investment is ₹ 500,000 per applicant per annum.

**4. Tax Treatment**

Income-tax: Interest on the Bonds will be taxable under the Income-tax Act, 1961 as applicable according to the relevant tax status of the Bonds holder.

**5. Issue Price**

- (i) The Bonds will be issued at par, i.e. at 100.00 per cent.
- (ii) The Bonds will be issued for a minimum amount of ₹ 5000/- (face value) and in multiples thereof. Accordingly, the issue price will be ₹ 5000/- for every ₹ 5,000/- (Nominal).

**6. Subscription**

Subscription to the Bonds will be in the form of Cash/Drafts/Cheques/ online through Internet banking. Cheques or drafts should be drawn in favour of the bank (Receiving Office), specified in paragraph 10 below and payable at the place where the applications are tendered.

**7. Date of Issue**

The date of issue of the Bonds in the form of Bonds Ledger Account will be opened (issued) from the date of receipt of funds/ realisation of draft/cheque.

**8. Form**

The Bonds will be issued only in the form of Bonds Ledger Account and may be held at the credit of the holder in an account called Bonds Ledger Account (BLA).

The Bonds in the form of Bonds Ledger Account will be issued and held with Reserve Bank of India. A certificate of holding as specified in form I will be issued to the holder of Bonds in Bonds Ledger Account.

**9. Applications**

- (i) Applications for the Bonds may be made in the application format attached or in any other form as near as thereto stating clearly the amount and the full name and address of the applicant.
- (ii) Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash/drafts/cheques/online through internet banking as indicated in paragraph 6 above.

**10. Receiving Offices**

Applications for the Bonds in the form of Bonds Ledger Account will be received at:

- (a) Branches of State Bank of India, Associate Banks, Nationalised Banks, three private sector banks (viz. HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd. and Axis Bank Ltd.) and Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) during their working hours.
- (b) Any other bank or number of branches of the banks and SHCIL where the applications will be received as specified by the Reserve Bank of India in this behalf from time to time.

**11. Nomination**

- (i) A sole holder or a sole surviving holder of a Bond(s), being an individual, may nominate in the form annexed to this notification or as near thereto as may be, one or more persons who shall be entitled to the Bonds and the payment thereon in the event of his/her death.
- (ii) Where any amount is payable to two or more nominees and either or any of them dies before such payment becomes due, the title to the Bonds shall vest in the surviving nominee or nominees and the amount being due thereon shall be paid accordingly. In the event of the nominee or nominees predeceasing the holder, the holder may make a fresh nomination.
- (iii) No nomination shall be made in respect of the Bonds issued in the name of a minor.
- (iv) A nomination made by a holder of Bonds may be varied by a fresh nomination as near thereto as may be, or may be cancelled by giving notice in writing to the Receiving Office in Form annexed to the notification.
- (v) Every nomination and every cancellation or variation shall be registered at the Reserve Bank of India through the authorised bank and shall be effective from the date of such registration.
- (vi) If the nominee is a minor, the holder of Bonds may appoint any person to receive the Bonds/amount due in the event of his/her death during the minority of the nominee.

**12. Transferability**

The Bonds in the form of Bonds Ledger Account shall be transferable to nominee(s) on death of holder (only individuals).

**13. Interest**

The Bonds will bear interest at the rate of 1.5% (fixed rate) per annum + inflation rate calculated with respect to final combined Consumer Price Index [(CPI) Base: 2010=100]. Final combined CPI will be used with a lag of three months to calculate incremental inflation rate (i.e. final combined CPI for September would be used as reference CPI for all days of December). Interest will be compounded with half-yearly rests and will be payable on maturity along with the principal.

**14. Advances/Tradability against Bonds**

The Bonds shall not be tradable in the secondary market. The Bonds shall be eligible as collateral for loans from banks, Financial Institutions and Non-Banking Financial Company (NBFC). The lien to that effect will be marked in the depository (RBI) by the authorized banks.

**15. Repayment**

The Bonds shall be repayable on the expiration of 10 (ten) years from the date of issue. The investor will be advised by the authorized bank one month before maturity regarding the ensuing maturity of the bond advising them to provide a Letter of Acquaintance, confirming the NEFT/ NECS account details, etc to the authorized bank. If everything is in order the investor will be paid within maximum five days of the maturity.

Early repayment/redemption before the maturity date is allowed after one year of holding from date of issue for senior citizens i.e. 65 years and above of age, and for all others after 3 years of holding, subject to the penalty charges at the rate of 50% of the last coupon payable. Early redemption to be allowed only on coupon dates.

**16. Handling Charges**

Handling charges at the rate of ₹ 1.00 (Rupee one only) per ₹ 100 will be paid to the authorized banks on the subscription amount received by them from investors.

By Order of the President of India,  
Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Sec y

**Form I**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**Certificate of Holding**

**Inflation Indexed National Saving Securities-Cumulative (IINSS-C)**

Certified that (Name of Subscriber) (Investor ID) is the holder of **Inflation Indexed National Saving Securities-Cumulative (IINSS-C)** as per details given below.

Certificate	Amount	No. of	Issue	Maturity	Investing	Investment ID	Nominee
-------------	--------	--------	-------	----------	-----------	---------------	---------

ID.		Units	date	date	Bank IFSC		
1							
2							

**Repayment Account details:**

Account no:

IFSC:

Account name:

This is issued subject to the terms and conditions laid down in the Govt of India Notification No. dated

Computer generated - does not require a signature.

FORM – IINSS-C

< Name of the bank >

< Name of the branch>

Application Number

\_\_\_\_\_

## APPLICATION FORM FOR INFLATION INDEXED NATIONAL SAVINGS SECURITY – CUMULATIVE (IINSS-C)

(Put  $\surd$  wherever required. Fields with ‘\*’ are mandatory)**For Office use only**

Office use only				
Date of receipt of Application (DD/MM/YYYY)	BLA No.	CIF No.	Certificate No.	Date of Credit to Govt. A/C (DD/MM/YYYY)
Branch Name & Code				

**Applicant(s) name(s) [in block letters]**

[illegible]

3##Unique ID (1<sup>st</sup> Applicant) Aadhar No..... Passport No..... Driving License No.....

[illegible][illegible][illegible]Guardian's relationship with minor ☐ Father ☐ Mother ☐ Legal Guardian\*Date of Birth: 1<sup>st</sup> Applicant (DD/MM/YYYY) ...../...../..... Gender: M/F\*Date of Birth: 2<sup>nd</sup> Applicant (DD/MM/YYYY) ...../...../..... Gender: M/F\*Date of Birth: 3<sup>rd</sup> Applicant (DD/MM/YYYY) ...../...../..... Gender: M/F

<sup>3</sup> ## Any one of these documents and in case of multiple investments by the same individual, the same ID should be provided.

4. PAN is mandatory for investment of ₹ 50,000/- and above, except as provided under IT Rule 114B and C, where the investor may make declaration in Form No. 60 (IT Rule 114B) and/or Form 61 (IT Rule 114C) as applicable.

Signature/Thumb Impression  
(1<sup>st</sup> Applicant)

Signature/Thumb Impression  
(2<sup>nd</sup> Applicant)

Signature/Thumb Impression  
(3<sup>rd</sup> Applicant)

(Thumb impression to be attested by two witnesses)

**Witnesses:**

Name of 1<sup>st</sup> Witness.....

Name of 2<sup>nd</sup> Witness.....

Address.....

Address.....

.....

.....

Signature.....

Signature.....

**DECLARATION CUM UNDERTAKING TO BE FURNISHED BY THE INVESTORS OF INFLATION INDEXED NATIONAL SAVINGS SECURITY-CUMULATIVE (IINSS-C)**

I/We, as first investor, hereby declare and undertake that my/our aggregate investment in Inflation Indexed National Savings Security-Cumulative:

2) As an **individual**

- a) in my individual capacity
- b) in individual capacity on joint basis
- c) in individual capacity on any one or survivor basis
- d) on behalf of a minor as Father/mother/Legal Guardian

3) As a Hindu Undivided Family (HUF)

4) As a **Charitable Institution or University**

Does not exceed ₹ 5,00,000/- (Rupees five lakh only) during the 12-month period commencing from April 01, ..... to March 31, .....

I/We also declare and undertake that I/We shall adhere to the limit on investments as provided for by the Central government from time to time, which is ₹ 5,00,000/- (Rupees five lakh only) during the 12-month period commencing from April 01, ..... to March 31, .....

In case, at any time, the said declaration is found untrue/false, no interest shall be payable to me/us, the subscriber(s) on the amount of investments found in excess of the prescribed limit.

Date: .....

Signature or thumb impression  
of the Subscriber

Place: .....

(Thumb impression to be attested by two witnesses)

**Witnesses:**

Name of 1<sup>st</sup> Witness.....

Name of 2<sup>nd</sup> Witness.....

Address.....

Address.....

.....

.....

Signature.....

Signature.....

(Date, Bank Stamp & Signature of Authorised Official)

**H.U.F. declaration form**

(Mandatory, if applicant is Karta of HUF)

I, ....., residing at the address given against First Applicant, do solemnly affirm that I am the Karta of the Hindu Undivided Family and as such have full powers to sell, endorse, transfer or otherwise deal in the Inflation Indexed National Savings Security-Cumulative (IINSS-C) standing in the name of the HUF.

Specimen signature for and on behalf of the HUF (name of the HUF) .....

(Signature of the Karta with seal of HUF)

Place: .....

Date: .....

**Nomination facility (optional)**

I,.....residing at.....  
 ....., and holder of Bond Number .....  
 ..... nominate the following person/s who shall on my death have the right to the bond /  
 receive payment of the amount for the time being due on the bond(s) specified below :

Particulars of Nominee /s							
Sr. No.	Date of issue	Amount (₹)	Date of repayment	Full name with expanded initials and address of nominee	Date of birth	Relationship to holder	Particulars of bank account

*If nominee is minor, please fill in the line below:*

As.....the sole nominee above is a minor on this date, I appoint Mr/Mrs/ Ms .....to receive the amount for the time being due on the above bond(s) in the event of my death during the minority of the said nominee.....(name of the nominee who is a minor).

**Change/cancellation of nomination:** This nomination is in substitution of the nomination dated ...../...../..... made by me and registered on your books at..... which shall stand cancelled on registration of this nomination.

Place: .....

Date: .....

Signature / Thumb impression of the 1<sup>st</sup> Applicant  
 (Thumb impression to be attested by two witnesses)

**Witnesses:**Name of 1<sup>st</sup> Witness.....Name of 2<sup>nd</sup> Witness.....

Address.....

Address.....

.....

.....

Signature.....

Signature.....

**INFORMATION FOR INVESTORS IN**  
**INFLATION INDEXED NATIONAL SAVINGS SECURITY-CUMULATIVE (IINSS-C)**

Government of India has introduced Inflation Indexed National Savings Security-Cumulative (IINSS-C) vide their notification No. .... The main features of the Scheme are as under:-

Item	Inflation Indexed National Savings Security-Cumulative	Remarks
1) Category of Investor	Individual, HUF, University, Charitable Institution.	Non resident Indians are not eligible to invest in these bonds
2) Limit of investment	Minimum ₹5,000/- and Maximum investment ₹5,00,000/- per investor per annum	
3) Date of Issue of bonds	Date of receipt of funds/realization of cheque/draft	
4) Forms of Bonds	Demat	Bond Ledger Account (BLA)
5) Interest Option	Cumulative i.e. interest is payable at the time of maturity	Half-yearly interest compounding
6) Post Maturity Interest	Post Maturity Interest is <b>not payable</b>	
7) Bank account	It is mandatory for the investors to provide bank account details to facilitate payment of interest /maturity value	
8) Nomination Facility	The sole Holder or all the joint holders may nominate one or more persons as nominee	Including NRIs
9) Maturity period	After 10 years	
10) Premature redemption	After one year from date of issue for senior citizens i.e 65 years and above of age, and for all others after three years.	Penalty charges @ 50% of last coupon payment. Allowed only on coupon dates.
11) Transferability	Limited to nominee(s) on death of holder (only for individuals).	
12) Loans from banks against the security of these Savings bonds	The holders of the said securities shall be entitled to create pledge, hypothecation or lien in favour of scheduled bank, FIs, NBFCs.	
13) Application forms	Branches of SBI and Associate banks, 20 Nationalised banks, 3 Private Sector banks viz. HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd. and Axis Bank Ltd., and Stock Holding Corporation of India Ltd.	

**DUTIES OF INVESTOR/ APPLICANTS**

- a) Please fill up the application in all respects.
- b) Incomplete applications are liable to result in delay of issue of the securities (at the cost of the investor).
- c) In case the application is submitted by a Power of Attorney (POA) holder, please submit original POA for verification, along with an attested copy.
- d) In case the application is on behalf of a minor, please submit the original birth certificate from the School or Municipal Authorities for verification, together with an attested copy.
- e) Please note that nomination facility is available to a Sole Holder or all the joint holders (investors) of an IINSS-C Bond.

- f) In case nominee is a minor, please indicate the date of birth of the minor and a guardian can be appointed.
- g) Nomination facility **is not available** in case the investment is **on behalf of minor**.
- h) Please notify the change of address immediately.
- i) POST MATURITY INTEREST IS NOT PAYABLE AFTER DATE OF MATURITY. HENCE PLEASE OBTAIN REDEMPTION PROCEEDS ON THE DUE DATE.
- j) Indicate your date of birth/age.
- k) Provide your bank account details for receiving payment through Electronic mode
- l) Any information regarding tax applicability may be provided to the bank/branch.

#### **RIGHTS OF THE INVESTOR**

- a) The Bond (Certificate of Holding) will be issued on the day receipt of funds/realization of cheque/draft.
- b) The interest on the bond compounds half-yearly. The redemption proceeds (principal and interest) will be credited to the bank account of the holder directly, as per the details provided by him/her in the application form.
- c) Maturity intimation advice will be issued one month before the due date of the bond.
- d) Facility for payment of interest and principal by 'demand draft free of cost or at par cheques' for is available.
- e) The facility of intra-bank branch and inter bank branch transfer of the bonds is available.
- f) Application forms for investments, redemption, NECS/NEFT Mandate, etc. in respect of IINSS-C Bonds are available on the website at [www.....com](http://www.....com) (Banks and SHCIL website).
- g) A sole holder or all the joint holders may nominate one or more nominees to the rights of the bonds. Non-resident Indians can also be nominated
- h) The nomination will be registered at the Office of Issue and a Certificate of Registration will be issued to the holder.
- i) The nomination can be varied by registering a fresh nomination.
- j) The existing nomination can be cancelled by a request to the Office of Issue.
- k) The redemption is due on expiry of ten years from the date of investment, unless applied for premature redemption as applicable.
- l) The investor is entitled to receive repayment amount within five clear working days from the date of tender of acquaintance.
- m) To avoid delay in receipt of interest/redemption proceeds applicants may indicate his choice, for availing of half yearly interest/redemption proceeds through NECS/NEFT/ RTGS or direct credit to the bank account.
- n) Investors are entitled for compensation for delayed payments at the rate decided by RBI (in respect of Relief and Savings bonds) vide their circulars issued from time to time.

In case the bank does not comply with the above, you may lodge a complaint in writing in to the nearest office of Reserve Bank of India as under:

**THE REGIONAL DIRECTOR,  
RESERVE BANK OF INDIA,  
CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT/  
BANKING OMBUDSMAN  
(LOCATION)**  
-----

YOU MAY ALSO ADDRESS YOUR COMPLAINT TO:

**THE CHIEF GENERAL MANAGER IN-CHARGE  
DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS  
CENTRAL OFFICE  
BYCULLA, OPP. BOMBAY CENTRAL RAILWAY STATION  
MUMBAI-400 008, MAHARASHTRA**

Disclaimer:- I have read and understood the details of information for the investors as well as rights and duties of investors. The agent/bank has explained the features of the scheme to me.

Signature of the applicant

----- TEAR AWAY HERE -----

**Acknowledgement of Application Form**

Application No.

Bank branch..... Date ...../...../.....

Received from Mr/Mrs/Ms..... Cash/online  
through Internet banking/Draft/Pay Order/Cheque No. .... dated  
...../...../..... drawn on (Bank and branch) .....for  
₹.....(Rupees.....only) for the purchase of Inflation Indexed National  
Savings Security for a period of 10 years, interest payable on cumulative basis of the nominal value of  
₹..... (Rupees ..... only).

Date, Bank Stamp & Signature of the authorized  
official of the bank.